



SINDHI HIGH SCHOOL, BENGALURU
ANNUAL EXAMINATION (2023-24)
SUBJECT – Additional Hindi

Class: V

Date: 18/03/2024

Number of printed sides: 6

Marks: 80

Reading Time: 15 mins

Writing Time: 2½ hrs

सामान्य निर्देश :-

- * इस प्रश्न पत्र में चार खंड हैं - खंड (क) (ख) (ग) और (घ)
- * सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए।
- * चारों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

(खंड - क)

1. क दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए।

5

इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन के निवासी "काई लून" ने किया था। कागज़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कागज़ हमें पेड़ों से मिलता है और काफ़ी परिश्रम के बाद इसे कारखाने में तैयार किया जाता है। आजकल इस्तेमाल किए गए कागज़ को फिर से उपयोगी बनाया जाता है जिसे "री-साइकिल्ड" पेपर कहते हैं। पुरानी पत्र-पत्रिकाओं को ऐसे ही कूड़ेदान में न डालकर अलग डिब्बे में एकत्र किया जाए तो हम उससे फिर से काम करने योग्य कागज़ बना सकते हैं। हमें बेकार में कापियों से कागज़ नहीं फाड़ने चाहिए। कागज़ का हर भाग प्रयोग कर लेने से हम कागज़ को बर्बाद होने से बचा सकते हैं।

(क) कागज़ हमें किनसे मिलता है ?

- (i) धूप से (ii) हवा से (iii) नदियों से (iv) पेड़ों से

(ख) इस्तेमाल किए गए कागज़ को फिर से उपयोगी बनाना क्या कहलाता है ?

- (i) री मेंज (ii) रि-मिक्स (iii) री-साइकिल्ड (iv) री-चार्ज

(ग) कागज़ कहाँ तैयार किया जाता है ?

- (i) रसोई घर में (ii) कारखाने में (iii) पार्क में (iv) बगीचे में

(घ) कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था ?

- (i) चीन में (ii) अमेरिका (iii) जापान (iv) दिल्ली

(ङ) हम कागज़ को बर्बाद होने से कैसे बचा सकते हैं ?

- (i) उसे फाड़कर (ii) फेंककर (iii) प्रयोगकर (iv) कागज़ का हर भाग प्रयोग कर

ख) दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए:- 5

विभीषण ने दूर से ही अपना परिचय देते हुए राम के पैर पकड़ लिए और राम से शरण माँगी। राम ने विभीषण का उचित स्वागत किया और पास बैठकर लंका का हाल पूछा। विभीषण ने कहा, “रावण का बल तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। उसने देवताओं को जीतकर यमराज को बाँध लिया था। जब वह गदा लेकर चलता है तो पृथ्वी काँप उठती है। हमारा मँझला भाई कुंभकर्ण युद्ध में पहाड़ के समान अड़ जाता है। रावण के बड़े पुत्र मेघनाद ने तो इंद्र को ही जीत लिया था।

1. विभीषण ने किससे शरण माँगी?

- (i) रावण (ii) राम (iii) कुंभकर्ण (iv) इंद्र

2. रावण ने किसे बाँध लिया था ?

- (i) राम (ii) इंद्र (iii) विभीषण (iv) यमराज

3. कुंभकर्ण किसका मँझला भाई था?

- (i) विभीषण (ii) राम (iii) मेघनाद (iv) यमराज

4. रावण के बड़े भाई का क्या नाम था?

- (i) विभीषण (ii) कुंभकर्ण (iii) मेघनाद (iv) इंद्र

5. जब रावण गदा लेकर चलता है तो कौन काँप उठती है?

- (i) पृथ्वी (ii) आसमान (iii) पेड़ (iv) हवा

खंड- ख

II क). एक-एक पर्यायवाची शब्द लिखिए

2

1. विद्या 2. शरीर 3. तिथि 4. संकट

ख.) विलोम शब्द लिखिए-

2

1. पसंद 2. बाहर 3. आशा 4. खुशबू

ग.) मुहावरों के अर्थ लिखिए

2

1. चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना 2. उड़न छू होना

घ.) संयुक्ताक्षरों से दो-दो शब्द बनाइए

2

1. स्त 2. त्त

ङ) अनेकार्थक शब्द लिखिए (दो-दो)

2

1. पूर्व 2. पानी

च) अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए

2

1. जो जादू का खेल दिखाता हो -
2. जिसका मूल्य अधिक हो -
3. जिसकी बुद्धि अधिक हो -
4. जिसने अभ्यास किया हो-

छ) दिए गए वाक्यों को उचित संबंधबोधक शब्द भरकर पूरे कीजिए-

2

(के साथ , के पास , के बिना, के अंदर)

1. शिक्षा _____ मनुष्य पशु के समान है ।
2. घर _____ अंदर आराम करो ।
3. मेरा घर विद्यालय _____ ही है ।
4. रमेश अपने पिताजी _____ रहता है ।

ज. नीचे लिखे संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण लिखिए-

2

विशेषण संज्ञा

1. _____ कक्षा
2. _____ आवाज
3. _____ महिला
4. _____ बच्चे

4

झ. अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए -

- (i) क्रांतीकारी (ii) सार्थक (iii) सानदार (iv) राष्ट्रीय

(खंड ग)

III. क) दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए -

1X10=10

1.. गाँधी जी किस चीज़ के कट्टर विरोधी थे ?

- क) स्वदेशी के ख) आधुनिक शिक्षा के ग) मदिरापान के

2. अलादीन किसका बेटा था ?

- क) बढ़ई का ख) दर्जी का ग) कुम्हार का

3. मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान कैसे बन जाता है?

- क) आराम करने से ख) नियमित अभ्यास करने से ग) कल्पना करने से

4. संचार का सबसे अच्छा साधन किसे कहा गया है?

क) रेडियो ख) टेलीविजन ग) मोबाइल फ़ोन

5. टोनी 2008 में कहाँ गया ?

क) बेंगलुरु ख) दिल्ली ग) मुंबई

6. सुई की जगह क्या काम नहीं कर सकता ?

क) डंडा ख) बंदूक ग) तलवार

7. विद्या रुपी धन को पाने के लिए क्या करना चाहिए ?

क) आराम ख) परिश्रम ग) नकल

8. काँटो में राह कौन बनाता है?

क) कायर ख) वीर ग) जानवर

9. शरद के घर पहरेदारी का काम कौन करता था?

क) शरद स्वयं ख) रोबोट ग) पहरेदार

10. रोबोट शरद के कमरे से क्या चीज़ लेकर बाहर गया?

क) टीवी ख) कैमरायुक्त पेन ग) टीवीयुक्त पेन

IV. एक - दो वाक्यों में उत्तर लिखिए।

(5 X 2 = 10)

1. सिस्टर जेम्स कौन थीं ?

2. शरद कई दिनों से परेशान क्यों था?

3. हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए?

4. स्मार्ट फ़ोन के क्या-क्या उपयोग हैं? किन्हीं दो उपयोग का नाम लिखिए।

5. 'काँटो में राह बनाते हैं' कविता के कवि कौन हैं?

V. क सही उत्तर पर सही () और गलत उत्तर पर () का निशान लगाइए ।

5

1. मोबाइल फ़ोन से केवल मैसेज भेजे जा सकते हैं ।

2. वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बातें नहीं करनी चाहिए ।

3. सिस्टर जेम्स की आवाज़ बड़ी ऊँची और सख्त थी ।

4. स्कूल में नेत्रहीन और सामान्य बच्चों के बैठने की व्यवस्था अलग-अलग थी ।

5. डायरी लेखक पर सिस्टर जेम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

ख. दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए।

5

(मज़ाक , मुस्कुराते , मदद, चिल्लाने, जंगल, गाँव, चराने, लड़का,बुरा , वापस)

किसी _____ में गोपी नाम का एक -----रहता था । वह प्रतिदिन _____ में भेड़-बकरियाँ _____ जाता था । एक दिन जंगल में अपनी भेड़ -बकरियाँ चरा रहा था, तो उसे एक _____ सूझा । वह एक पेड़ पर चढ़ गया और ज़ोर से _____ लगा बचाओ बचाओ भेड़िया आया भेड़िया आया । उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गाँव वाले उसकी _____ करने दौड़े-दौड़े आए। गाँव वालों ने पूछा- कहाँ है भेड़िया? गोपी ने _____ हुए कहा भेड़िया तो आया ही नहीं । मैं तो झूठ-मूठ यों ही मजाक कर रहा था । गाँव वालों ने रामू को बहुत _____ कहा और _____ चले गए ।

VI.क गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए:-

5

गुलीवर जहाज पर नौकरी करता था । जहाज पर नौकरी हुए करते उसने कई लंबी-लंबी यात्राएँ की । एक बार दक्षिणी सागर में पूर्वी द्वीप-समूह की ओर जाते हुए उसका जहाज तूफ़ान में फँसकर चकनाचूर हो गया । सौभाग्य से वह तैरकर किनारे पर आ गया और थककर वहीं लेट गया । जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने-आपको पतले-पतले धाँगों से बँधा पाया । गुलीवर आश्चर्य में पड़ा सोच रहा था कि कोई चीज़ उसके पैरों पर रेंगती-रेंगती उसकी छाती पर आ खड़ी हुई ।

1.. गुलीवर कहाँ नौकरी करता था?

क) बस में ख) ट्रेन में ग) जहाज पर घ) कार में

2. नौकरी करते हुए उसे किस चीज़ का फ़ायदा हुआ ?

क) खेल का ख) मनोरंजन करने का
ग) छोटी-छोटी यात्रा करने का घ) लंबी-लंबी यात्रा करने का

3. जहाज के टूटने पर गुलीवर किनारे कैसे पहुँचा ?

क) तैरकर ख) नाव से ग) बहते हुए घ) कोई नहीं

4. जब गुलीवर की नींद खुली तो उसने खुद को किससे बँधा पाया?

क)रस्सियों से ख) जंजीरों से ग) पतले-पतले धागों से घ) कपड़े से

5. क्या चीज़ उसके पैरों पर रेंगती-रेंगती उसकी छाती पर आ खड़ी हुई ?

क) चींटी ख) मानव- आकृति ग) गुड़िया घ) कुछ नहीं

ख) दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए:-

5

हम हैं पहरेदार देश के , हम हैं पहरेदार ।

युद्ध चाहते नहीं कभी भी

शांति हमारी नीति

हम सारी दुनिया से रखते

भाई की-सी प्रीति ॥

सत्य,अहिंसा, मानवता से हम करते हैं प्यार

हम हैं पहरेदार देश के हम हैं पहरेदार ॥

कभी नहीं हम मिटने देते

भारत माँ का मान

स्वतंत्रता की रक्षा में

हो जाते बलिदान॥

सीमाओं पर खड़े हुए बन लोहे की दीवार ॥

1 देश के पहरेदार क्या नहीं चाहते ?

क) युद्ध

ख) शांति

ग) संधि

2. सारी दुनिया में हम क्या चाहते हैं ?

क) प्रतियोगिता

ख) भाई की-सी प्रीति

ग) मित्रता

3. पहरेदार किसकी रक्षा में बलिदान हो जाते हैं ?

क) ज़मीन की

ख) घर की

ग) देश की स्वतंत्रता की

4. हम कभी क्या मिटने नहीं देते?

क)भारत माँ का मान

ख) लोहे की दीवार

ग) अहिंसा का मान

5. पहरेदार सीमाओं पर कैसे खड़े रहते हैं ?

क) चाँदी की दीवार बनकर

ख) मिट्टी की दीवार बनकर

ग) लोहे की दीवार बनकर

(खंड - घ)

VII. मित्र को जन्म दिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए।

5

या

अपने परीक्षा के अंकों की चर्चा करते हुए पिता को पत्र लिखिए

VIII. पाँच से छः वाक्यों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए।

5

(क) हमारा प्यारा भारत या (ख) समय का महत्व या (ग) मेरा विद्यालय
